

# जनगणना 101



NORTH CAROLINA  
ASIAN AMERICANS TOGETHER

[www.ncaatogether.org/census](http://www.ncaatogether.org/census)

प्रत्येक 10 वर्ष में, अमेरिकी सरकार जनगणना के माध्यम से अमेरिका में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की गिनती करती है। जनगणना एक छोटी-सी प्रश्नावली है जिसमें आपके घर और उसमें रहने वाले सदस्यों के बारे में मूलभूत जानकारी मांगी जाती है। आपके व्यक्तिगत उत्तर गोपनीय हैं। अगली जनगणना मार्च 2020 में आरंभ होगी। सुनिश्चित करें कि संसाधनों और प्रतिनिधित्व में उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए आपकी गणना हो!

## जनगणना में गिना जाना आपके और आपके परिवार के लिए मददगार होता है।



- जनगणना से प्राप्त जानकारी का प्रयोग सरकार की 800 बिलियन डॉलर से अधिक की निधि को विद्यालय, पुस्तकालय, फूड स्टैम्पो, और स्वास्थ्य देखभाल जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए बांटा जाता है।
- जनगणना से प्राप्त जानकारी का प्रयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व निर्धारित करने लिए भी किया जाता है; आपके क्षेत्र में जितने अधिक लोग गिने जाएंगे, उतने ही अधिक आपके प्रतिनिधि होंगे।

## आपके जनगणना उत्तर गोपनीय रहते हैं।



जनगणना ब्यूरो को आपकी व्यक्तिगत जानकारी अन्य सरकारी एजेंसियों, आप्रवासन अधिकारियों, या जनता के साथ साझा करने की अनुमति नहीं है। मजबूत कानून आपकी प्रतिक्रिया को साझा होने से बचाते हैं! जनगणना में दी गई जानकारी का प्रयोग केवल सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

## जनगणना में भाग लेना आसान है और शीघ्र ही होता है

- आप ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। जनगणना ब्यूरो आपको मार्च 2020 के मध्य में निर्देश भेजेगा। सरकारी जनगणना वेबसाइट पर जाएँ, अपने घर की ID डालें, और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर दें।
- आप फोन के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं। जनगणना में फोन के जरिए उत्तर देने के लिए जनगणना ब्यूरो को और फोन करें, और जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछें।
- यदि आप ऑनलाइन या फोन के माध्यम से जनगणना भागीदारी नहीं करते हैं, तो जनगणना ब्यूरो आपको कागजी प्रश्नावली डाक के जरिये भेजेगा।

यदि आप ने उत्तर नहीं दिये हैं, तो 2020 के आरंभ से कोई एक जनगणना का कर्मचारी आपके घर स्वयं आकर जानकारी ले सकता है। आप अभी भी जून 2020 तक किसी भी दिन ऑनलाइन या फोन के जरिए हिस्सा ले सकते हैं।

## कुछ भाषाओं के लिए भाषा सहायता उपलब्ध है।

ऑनलाइन प्रश्नावली और टेलीफोन सहायता स्पेनिश, वियतनामी, कोरियन, रूसी, अरबी, टैगालॉग, पोलिश, फ्रेंच, हेतियन, क्रिओल, पुर्तगाली, और जापानी में उपलब्ध है। जनगणना ब्यूरो 59 गैर-अंग्रेज़ी भाषाओं में भाषा शब्दकोश, भाषा पहचान पत्र और भाषा गाइडें तैयार कर रहा है जिन्हें [www.2020census.gov](http://www.2020census.gov) पर रखा जाएगा।



आप जनगणना के बारे में अधिक जानकारी इस पर पा सकते हैं: [www.countusin2020.org/resources](http://www.countusin2020.org/resources)